

के लिये किया जा रहा है कि किस किसमें की एजुकेशन यानी कौन से सबजेक्ट्स एम्प्लायमेंट के साथ ज्यादा रिलेटेड हैं और कौन ग्रजुएट ज्यादा अनएम्प्लाइड हैं और उनकी क्या बैकग्राउंड हैं। यह जानकारी प्राप्त होने से एजुकेशन के सिस्टम में स्टडीज के बारे में ज्यादा फायदा हो सकेगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि इन स्नातकों की जो बेकारी है। उसके लिये बहुत दूर तक हमारी शिक्षा पद्धति ही जिम्मेदार है। अभी माननीय मंत्री ने शिक्षा के सम्बन्ध में कहा। और क्या यह बात सही नहीं है कि इस सम्बन्ध में कई प्रस्ताव शिक्षा पद्धति के परिवर्तन के विषय में सरकार के सामने आये हैं। और उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। क्या इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न किया जायगा कि जितने मुझाव इस सम्बन्ध में सरकार के पास अब तक आये हैं उनको कार्य रूप में परिणत किया जाये।

श्री नन्दा : यह अलाहिदा सवाल है। शिक्षा पद्धति के बारे में भी कमीशन का एक पैनल विचार करेगा। मैं समझता हूँ कि यह सवाल भी उसके सामने होगा।

Shri N. R. Muniswamy: May I know what is the amount spent so far in conducting this survey, and why, instead of the Education Ministry, the Labour Ministry is doing this?

Shri L. N. Mishra: An allotment of Rs. 65,000 has been made for it. It is difficult to say how much of it has been spent so far. As regards the latter part of the question, this is being conducted under the DGRE which is working under the Labour Ministry. As a matter of fact, there is a Committee with representatives from the Home Ministry, the Planning Commission, the Central Statistical Organisation, the Ministry of Education and the University Grants Commission.

Shri Chintamani Panigrahi: May I know whether the number of unemployed graduates has increased since the beginning of the Second

Five Year Plan? If so, to what extent has the number increased?

Shri L. N. Mishra: This is a question of figures. But it is a fact that the number in the 'live' register is rising.

Shri B. K. Gaikwad: May I know what is the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe graduates who are employed?

Mr. Speaker: Is there a break-up of the figures?

Shri L. N. Mishra: No, Sir; we have not got the break-up at present.

Raja Mahendra Pratap: May I know whether there is any plan to leave the whole thing to municipalities, towns and villages, to employ all the unemployed?

Shri L. N. Mishra: We are having a survey. There is no such plan.

Shrimati Ila Palchoudhuri: In view of the fact that there is such a big survey being made, how is it proposed to correlate this survey with the kind of employment that will be available before the students go in for their various subjects, so that the Education Ministry could be apprised of the kind of absorption that there would be in employment?

Shri Nanda: That is precisely the kind of information which the survey will throw up. Therefore, it will help in the realisation of the aim which the hon. lady Member has indicated.

Price of Raw Jute

- +
- *15. { **Shri Aurobindo Ghosal:**
Shri B. Das Gupta:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:

- (a) whether there has been a rise in the price of raw jute recently; and
 (b) if so, to what extent and its

repercussion on jute industry and foreign market?

The Minister of Commerce (Shri Kanungo): (a) and (b). Owing to a fall in jute production in the last season and apprehensions of a shortage of supplies, the price of Assam Bottom variety had risen from Rs. 21.50 per maund on 30th July, 1959 to Rs. 56 per maund on 10th May, 1960. Since then the trend has been downward and has come down steadily to Rs. 37.50 per maund on 23rd July, 1960. The shortage of fibre has necessitated a temporary and voluntary curtailment of production in some mills. The export position has not been affected by the high prices.

Shri Aurobindo Ghosal: May I know if the rise in price of jute is due to excessive speculation?

Shri Kanungo: At a certain stage, there were apprehensions of that, but the Jute Exchange put a heavy bar and it was controlled.

Shri Aurobindo Ghosal: May I know if jute looms have been sealed in West Bengal jute mills due to want of raw jute?

Shri Kanungo: Yes, Sir.

Shri Rameshwar Tantia: May I know whether it is a fact that in the futures market, only the buyers have to pay a heavy margin? If so, what is the reason for that?

Shri Kanungo: That is for the Board to decide.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जूट की कीमत में और हिन्दुस्तान के जूट की कीमत में क्या अन्तर है? क्या दोनों की कीमतें बढ़ी हैं या केवल हिन्दुस्तान के जूट की ही कीमतें बढ़ी हैं?

Shri Kanungo: The rise was in India only.

Shri Rameshwar Tantia: May I know what will be the Government's policy in regard to raw jute export

against import of Pakistan cuttings which can be imported at half the price of our raw jute?

Shri Kanungo: We always keep the matter under constant review, and do not disclose it.

Shri P. G. Sen: Is it a fact that a section of the purchasers did corner the market and hence there was a rise in jute price; and the agriculturists had nothing to do with it as they had no stock in their hands?

Shri Kanungo: Naturally, the maximum rise happened at a period when the stocks had moved from the farmers to the traders or the mill. As far as the question of cornering is concerned, we have no information on that subject. Presumably, there is no cornering.

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि जूट की प्राइस में जो ग्रप एंड डाउन होता है तो उसको रोकने के लिये क्या सरकार कोई मिनिमम प्राइस फिक्स करना चाहती है जिससे किसानों को मिनिमम प्राइस मिल सके ?

श्री कानुनगो : अभी तो मैक्सिमम है मिनिमम का सवाल कहाँ है ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो प्राइस कमी कम होता है और कमी ज्यादा होता है जैसे कि कटन का प्राइस है शुगरकेन का प्राइस है तो मैं शास्त्री जी से जो कि किसानों का हित सदैव अपने सामने रखते हैं उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों को मिनिमम प्राइस मिलने के लिये वे क्या कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री ताल बहादुर शास्त्री) : यह सवाल माननीय सदस्य ने कई बार उठाया है और उनको मालूम है कि पिछले दो साल में हम लोगों ने ऐसा प्रबन्ध किया जिससे जूट पैदा करने वालों को नुकसान नहीं पहुँचा है। अब जहाँ तक व्यपार की बात है तो उसमें घटती बढ़ती होती रहती है कुछ हद तक बाजार भाव के अनुसार वहाँ कुछ काम चलता है और उसको मानना ही पड़ेगा।

Shri Indrajit Gupta: May I know whether Government is aware that, according to the official bulletin of the Indian Central Jute Committee, the recent rise in our jute prices is due to excessive speculation in the raw jute market; and, if so, why was not Government able to take adequate steps in time to control this speculation?

Shri Kanungo: No. The forecast of the crop was badly belied; and, therefore, there was shortage.

Shri Raghunath Singh: May I know what happened to the proposal of establishing a jute bank so that the surplus of one year may be kept for the other years?

Shri Kanungo: There is hardly any surplus to be carried over.

Shri Raghunath Singh: What about the proposal for establishing a jute bank?

Mr. Speaker: There is no surplus and there can be no proposal.

सिक्किम और भूटान को भारतीय संसदीय
शिष्टमंडल

+

*१६ { रो मन्त्र दर्शन :
 { रो आंतर :

क्या प्रवान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को एक निमंत्रण मिलने पर भारत के संसद सदस्यों का एक दल हाल ही में सिक्किम और भूटान गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दल में कौन-कौन संसद सदस्य गये थे ;

(ग) उस दल ने कौन कौन से स्थान और संस्थाएँ देखीं और किन-किन प्रमुख व्यक्तियों के साथ भेंट की ; और

(घ) इस यात्रा के फलस्वरूप अपने अनुभव के आधार पर इस दल ने भारत सरकार को क्या रिपोर्ट दी है ?

The Deputy Minister of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon):
(a) Yes, Sir.

(b) 1. Dr. Ram Subhag Singh, Leader, 2 Sh. Yadav Narayan Yadav, 3. Sh. T. Manaan, 4. Sh. Nek Ram Negi, and 5. Sh. R. S. Panjhzari.

(c) The delegation spent 2 days in Sikkim beginning 12th May, 1960 and 17 days in Bhutan. In Sikkim, they met the Maharaja, the Maharajkumar and the Dewan of Sikkim. They visited the local hospital, the Fruit Preservation Factory, the Rongni Chhu Hydel Station, the Government Farm, the Technical Institute and the Institute of Tibetology.

In Bhutan they met the Maharaja, the Prime Minister and Members of the Bhutanese Assembly. They visited the Fruit Preservation Factory, Hospitals, Schools, monasteries and the road to Paro which is being constructed with the help of the Government of India.

(d) The Delegation was not required to submit a report but the Leader has informally acquainted the Government with the general impressions received by the Members.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि इस प्रतिनिधि मंडल के सिक्किम और भूटान जाने से इन दोनों देशों और भारत के पिछले संबंध पहले से अच्छे हुए हैं और इसलिये क्या यह विचार किया जा रहा है कि सिक्किम और भूटान से कोई इस तरह का प्रतिनिधि मंडल भी भारत में आये ?

प्रवान मंत्री तथा वरिष्ठिक रूपे भन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमारे संबंध भूटान से तो बहुत ही अच्छे रहे हैं और इस प्रतिनिधि मंडल के जाने से शायद और भी उसमें अच्छाई पैदा हो। अब वहां से लौट तो आते जाते हैं और अभी पारसाल वहां से कुछ लोग आये थे और वहां से यदि और लोग आवें तो उनका हम जरूर स्वागत करेंगे।